

# प्रेसनोट दिनांक 31-12-2020 जनपद मुरादाबाद।

## 1 - प्रेसनोट थाना मुगलपुरा, जनपद मुरादाबाद ।

थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा किया गया साईकिल चोर गैंग का खुलासा चोरी की गयी 07 साइकिल व 02 चाकू सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर महोदय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.12.2020 को थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत तबकियान तिराहे पर म0उ0नि0 राजवेन्द्र कौर थाना मुगलपुरा ने मय हमराही पुलिसबल दौराने गश्त व चैंकिंग मुखबिर की सूचना पर समय 23.40 स्थान हाफिज बन्ने की पुलिया पर अभियुक्त गण 1. समीर पुत्र जलील अहमद उम्र 36 वर्ष निवासी कम्बल का ताजिया मौ0 दर्जियान फैजगंज थाना मुगलपुरा मुरादाबाद, 2. मेहन्दी पुत्र अब्दुल वहीद उम्र 50 वर्ष निवासी झन्डे वाली मिलक दलपतपुर थाना मूँढापाण्डे, 3. रिजवान पुत्र अहसान अली उम्र 26 वर्ष निवासी झन्डे वाली मिलक थाना मूँढापाण्डे मुरादाबाद को चोरी की 02 साइकिल व 02 चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया व अभियुक्तगण की निशादेही पर 05 साईकिले चोरी की बरामद की गयी ।

### बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद साईकिल रंग काला लाल जिस पर PRO MASTER26 अंकित है
2. एक अदद नीली रंग साईकिल जिस पर HERO MG अंकित है
3. एक अदद साईकिल रंग लाल जिस पर neelam jabardast अंकित है
4. एक अदद साईकिल लाल जिस पर neelam अंकित है
5. एक अदद रंग लाल जिस पर HERO अंकित है
6. एक अदद साईकिल काले रंग की जिस पर rock star अंकित है
7. एक अदद साईकिल रंग लाल जिस पर neelam अंकित है
8. दो अदद चाकू

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- श्री देवेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद
- 2- म0उ0नि0 राजवेन्द्र कौर
- 3- उ0नि0 श्री गौरव कुमार
- 4- का0 2814 राजू कुमार
- 5- का0 3006 पीयूष गौतम

### आपराधिक इतिहास –

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे अन्य जनपदों से जानकारी की जा रही है ।

1. मु0अ0सं0 683/20, धारा 411/414 भा0द0वि बनाम (समीर ,रिजवान , मेहन्दी )
2. मु0अ0स0 684/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम समीर ।
3. मु0अ0स0 685/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिजवान ।

## **2 – चरस सहित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मझोला:-**

आज दिनांक 31-12-2020 को उ०नि० श्री रामचन्द्र थाना मझोला ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सलीम पुत्र शरीफ निवासी गली नम्बर 01 करुला थाना कटघर मुरादाबाद को मय 200 ग्राम चरस सहित चौकी जयन्तीपुर के पास से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु०अ०सं० 1486/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

## **3 – दहेज के लिये प्रताडित कर हत्या कारित करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन:-**

दिनांक 30-12-2020 को वादिनी....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना अतरोली जनपद अलीगढ ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को कम दहेज के लिए मारपीट करना व गाली गलोच कर प्रताडित करना तथा जहर देकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु०अ०सं० 1652/20 धारा 498ए, 323, 504, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 31-12-2020 को सहायक पुलिस अधीक्षक श्री आकाश पटेल एवं निरीक्षक श्री गजेन्द्र त्यागी थाना सिविल लाइन ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त 1.संजीव पुत्र मुनेश, 2.आमोद पत्नी मुनेश निवासीगण रिक्शा कॉलोनी श्रमकुटीर हिमगिरी थाना सिविल लाइन मुरादाबाद को अभियुक्तगण के घर से समय 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

## **प्रेसनोट थाना मझोला, मुरादाबाद।**

**दिनांक 27.12.2020 को हत्या की घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार कर आलाकत्ल बरामद किया गया।**

दिनांक 27.12.2020 को पीआरवी कन्ट्रोल रूम से सोनकपुर काशीराम योजना में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुयी। सूचना पर थाना स्थानीय व थाना सिविल लाईन पुलिस मौके पर पहुँची, एक सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरे में अज्ञात पुरुष का शव मिला। शव को बोरे से बाहर निकालकर, शव के शिनाख्त करायी गयी तो मृतक की शिनाख्त खुर्शीद पुत्र शब्बीर नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद के रूप में हुयी। उक्त सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती नसीमा की तहरीर पर थाना मझोला पर मु०अ०सं० 1479/2020 धारा 302/201 भादवि बनाम 1-गौतम पुत्र नौ सिंह 2-लक्ष्मीचन्द पुत्र नामालूम 3- सुनीता पुत्री नौ सिंह 4-रेखा पुत्री नौ सिंह नि०गण हड्डी मील काशीराम कालोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद महोदय, के मार्गदर्शन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के पर्यवेक्षण, श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सि०ला० महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक (पर्यवेक्षणाधीन) के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक, थाना मझोला के नेतृत्व में थाना मझोला पुलिस द्वारा की गयी पतारसी सुरागरसी से प्रकाश में आया कि मुकदमा उपरोक्त की घटना 1-चाँदबाबू पुत्र पीरबक्श नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद 2-पिन्टू पुत्र नन्हे सिंह निवासी चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद द्वारा कारित की गयी है। दिनांक 31.12.2020 को टी०पी० नगर आटो स्टैन्ड से अभि० पिन्टू पुत्र

नन्हे सिंह निवासी चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभि० पिन्टू ने रेखा तथा चाँदबाबू के आपसी झगडे को लेकर रेखा को सबक सिखाने के लिए चाँदबाबू तथा मैंने मिलकर इस घटना को कारित करने का इकबाल किया गया है । दूसरा अभियुक्त व घटना का मास्टर माइन्ड चाँदबाबू पुत्र पीरबक्श नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद फरार है । इसकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. पिन्टू पुत्र नन्हे सिंह निवासी चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।

### फरार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. चाँदबाबू पुत्र पीरबक्श नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 42 वर्ष ।

### बरामदगी विवरण:-

- 1.आलाकल्ल (मृतक खुर्शीद का मफलर)
- 2.मृतक खुर्शीद के जूते
- 3.इलेक्ट्रानिक डिवाइस- एक अदद मोबाईल

### अपराध करने का तरीका: -

गिरफ्तार अभि० पिन्टू पुत्र नन्हे सिंह नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ने पूछताछ करने पर बताया कि सोनकपुर काशीराम योजना की रहने वाली श्रीमती रेखा के चाँदबाबू पुत्र पीरबक्श नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सि०ला० जनपद मुरादाबाद के साथ अवैध सम्बन्ध थे तथा दोनो के परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना था । चाँदबाबू रेखा से शादी करना चाहता था लेकिन रेखा ने स्वेच्छा से शादी करने से मना कर दिया था ।इस कारण चाँदबाबू रेखा से रंजित रखने लगा था । चाँदबाबू किसी भी तरह से रेखा को सबक सिखाना चाहता था । खुर्शीद चाँदबाबू का ट्रैक्टर चलाता था । चाँदबाबू ने खुर्शीद की हत्या कर हत्या का आरोप रेखा व रेखा के परिजनो पर मढने का प्लान बनाया था । दिनांक 25.12.2020 की रात को चाँदबाबू व मैंने खुर्शीद को शराब की दुकान पर बुलवाया ,तीनो लोगो ने शराब पी । ज्यादा शराब खुर्शीद को पिलवाई नशा होने पर हम उसे मोटर साईकिल पर बैठाकर सोनकपुर काशीराम योजना ले गये तथा खुर्शीद के ही मफलर से हम दोनो ने मिलकर उसका गला दबा दिया ।खुर्शीद की मृत्यु होने पर उसको बोरे मे बन्द कर वही डाल दिया । चाँदबाबू ने खुर्शीद का मफलर व जूते उठा लिये तथा उन्हे रेखा के घर के पास डाल दिये जिससे खुर्शीद की हत्या का शक रेखा व रेखा के परिजनो पर जाये ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1-अभि०- चाँदबाबू पुत्र पीरबक्श नि० चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सि०ला० जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

1. मु०अ०स० 503/12 धारा 302/201 भादवि थाना मझोला जनपद मुरादाबाद
2. मु०अ०स० 611/14 धारा 302/201/120बी भादवि थाना सि०ला० जनपद मुरादाबाद
3. मु०अ०स० 711/13 धारा 395/412 भादवि थाना सि०ला० जनपद मुरादाबाद
4. मु०अ०स० 647/07 धारा 147/332/353/323/224/225/307 भादवि व 7 क्रि०ला० अवेटमेन्ट एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद
5. मु०अ०स० 250/08 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद

6. मु0अ0स0 496/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सि0ला0 जनपद मुरादाबाद
7. मु0अ0स0 164/10 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना सि0ला0 जनपद मुरादाबाद
8. मु0अ0स0 133/14 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना सि0ला0 जनपद मुरादाबाद
9. मु0अ0स0 181/08 धारा 41/109 द0प्र0स0 थाना सि0ला0 जनपद मुरादाबाद
10. 110 जी द0प्र0स0 दिनांक 28.07.2020 थाना सि0ला0 जनपद मुरादाबाद
11. मु0अ0स0 1479/20 धारा 302/201 भादवि थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

**2-अभि0 पिन्टू पुत्र नन्हे सिंह नि0 चक्कर की मिलक निकट पुराना आरटीओ आफिस थाना सि0ला0 जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।**

1. मु0अ0स0 1479/20 धारा 302/201 भादवि थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री अजयपाल सिंह ,थाना मझोला मुरादाबाद
- 2.उ0नि0 श्री विनोद कुमार
- 3.उ0नि0 श्री पंकज कुमार
- 4.का0 2064 अंकुल
- 5.का0 133 सचिन कुमार
- 6.उ0नि0 श्री आशीष ,सर्विलान्स